

प का नाम:- R E O Road

~~maheva~~ region

maheva bhuska F.D.R

Measurement Book

Schedule XLV-Form No. 134

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण स्वयं विभाग, कार्य प्रमण्डल

नस्खटिपान

DIVISION

प्रमंडल:- जौनादा

SUB-DIVISION

M.B.N. 1551/2021-22

100.

प्रमाणित किया जाता है कि अंतर्गत मापन
 में मंजूर ले व्यापारिक 01 से 100 तक
 सादा पत्रा है इस मापी पुस्तक लघु
 अभियंता जमीन कार्य विभाग कार्य सच
 प्रमाणित जौनादा के नाम ले निर्गत किया
 जाता है।

(Signature)
 कार्यपालक अभियंता
 राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षण
 नरसिपुर
 29/11/21

This M.B. reissued to the name
 of J.E. Gurnaha, Sri Vajray Singh
 Singh.

(Signature)
 15-9-21
 AE

Sch, XLV-Form No. 134

कार्यपालक अभियंता
 राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षण
 नरसिपुर

DIVISION

जौनादा

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1557
 2021-22

Name of Officer _____

Name of Work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement -

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record Measurement</u>					
Name of road —					
Repair of					
road breaches					
(Damage of flood)					
for Motorability					
in RBO road to					
Mahua Bhusa in					
Gannaha block.					
Authority — E.E. RWD					
(W) Div - NKE.					
Agency — Departmental.					
Authority — E.E. RWD (W) Div. NKE.					
Road length — 2.55 km.					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record measurement</u>					
① Measurement for surfacing the breach with earth work					
2 all — — — — —					
1x 15.00 x 4.00 + 6.00					
$\times \frac{0.45 + 0.75}{2} \text{ cu} = 45.00 \text{ m}^3$					
1x 13.00 x 4.00 + 6.00					
$\times \frac{0.30 + 0.90}{2} = 39.00$					
1x 10.00 x 4.00 + 6.00					
$\times \frac{0.30 + 0.60}{2} = 22.50$					
1x 5.00 x 4.00 + 6.00					
$\times \frac{0.30 + 0.60}{2} \text{ cu} = 11.25$					
T = 117.75 m³					
<u>W. S. S.</u> OR 15-9-24 <u>W. S. S.</u> 15-9-24 AE					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record Measurement</u>					
① Measurement for surfacing the breach with brick bats.					
and ——— job.					
	1x	1.50+2.50	0+3.00		
		$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$		
	x	0.20+0.40			
		$\frac{2}{2}$		av = 1.20m	
	1x	2.00	1.50+2.50		
			$\frac{2}{2}$		
	x	0.20			1.20
	2x	1.50	2.75+3.25		
			$\frac{2}{2}$		
	x	0.20+0.40			27.00
		$\frac{2}{2}$			
	1x	16.00	3.00		
		$\frac{0.20+0.40}{2}$			14.40
	4x	1.50	2.75+3.25		
		$\frac{2}{2}$			
	x	0.20+0.40			45.00
		$\frac{2}{2}$		av	
	1x	5.00	3.00	0.25	3.75
	4x	2.00	1.50+2.50		
		$\frac{2}{2}$			
	x	0.20+0.40			4.80
		$\frac{2}{2}$			
	4x	2.00	2.00+4.00		
		$\frac{2}{2}$			
	x	0.20+0.40			7.20
		$\frac{2}{2}$		av	

Continuation 104.55 m²

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$B.F = 104.55 \text{ m}^2$
					$1415 \times 2.50 + 3.50$
					$\times 0.20 = 9.10$
					$145.00 \times 3.00 \times 0.20 = 9.00$
					$2 \times 15 \times 2.50 + 3.50$
					$\times 0.20 + 0.40 = 27.10$
					$1410.00 \times 2.50 + 3.50$
					$\times 0.20 + 0.40 = 9.10$
					$T = 152.55 \text{ m}^3$

~~VP 15.00~~
~~11.10.21~~
~~DE~~
~~11.10.21~~
~~AE~~
~~UP~~
~~11.10.21~~
~~EE~~

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
N/W —					
Repairing road					
broken by (Damage					
by flood) for					
motorability in					
RBO Road to Mahul					
bhura.					
Authority — E.R. RWD & Div					
NKE					
Agency — Departmental.					

① Cost of embankment
with approved
material and up to 100mm

Q — — — — — E.R.

Qty of T.M.C. Area ②

= 117.75 m²

@ Rs 174.33 / m²

= Rs 15817.00

② Prov. & laying brick
work and all —

Job.

Qty of ② = 152.55 m³

@ Rs 2142.53 / m³ = Rs 326843.00

Continuation

Cost Rs 342660.00

